

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सिरीज
Question Booklet Series
C

B.A.LL.B.(Sixth Semester) Examination, January-2022

B.A.LL.B.605 (PAPER-V)

HONOURS PAPER (BANKING LAW)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. The dishonour of Cheques for insufficiency of funds in the account is an offence under _____ of the N.I. Act.
 (A) Section 57
 (B) Section 117
 (C) Section 138
 (D) Section 148
2. The Notice dishonour of Negotiable Instrument should be given within reasonable time, defined under.
 (A) Section 85
 (B) Section 105
 (C) Section 125
 (D) Section 63
3. Which section defines dishonour of Negotiable instrument by non-Payment ?
 (A) Section 61
 (B) Section 92
 (C) Section 104
 (D) Section 117
4. In case of dishonour of Negotiable instrument which section defines dishonour by non-acceptance.
 (A) Section 71
 (B) Section 81
 (C) Section 91
 (D) Section 98

1. खाते में धन की कमी के कारण चेक का अनादर होना एक अपराध है, अर्न्तगत धारा पराक्रम्य लिखत अधिनियम।
 (A) धारा 57
 (B) धारा 117
 (C) धारा 138
 (D) धारा 148
2. किस धारा में वर्णित है कि उचित समय (युक्तियुक्त समय) के भीतर पराक्रम्य लिखत के अनादर की सूचना दी जानी चाहिये।
 (A) धारा 85
 (B) धारा 105
 (C) धारा 125
 (D) धारा 63
3. कौन सी धारा गैर भुगतान द्वारा पराक्रम्य लिखत के अनादर को परिभाषित करती है ?
 (A) धारा 61
 (B) धारा 92
 (C) धारा 104
 (D) धारा 117
4. पराक्रम्य लिखत के अनादर के मामले में कौन सी धारा अस्वीकरण द्वारा अनादर को परिभाषित करती है।
 (A) धारा 71
 (B) धारा 81
 (C) धारा 91
 (D) धारा 98

- | | |
|--|--|
| <p>5. Which section of Negotiable Instrument Act Deals with the non-liability of Banker Receiving Payment of cheque.</p> <p>(A) Section 111</p> <p>(B) Section 131</p> <p>(C) Section 211</p> <p>(D) Section 263</p> | <p>5. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की कौन सी धारा चेक का भुगतान करने वाले बैंकर की गैर देयता/दायित्वहीनता से सम्बन्धित है—</p> <p>(A) धारा 111</p> <p>(B) धारा 131</p> <p>(C) धारा 211</p> <p>(D) धारा 263</p> |
| <p>6. Duty of collecting Banker is/are -</p> <p>(A) Due care & diligence in the collection of cheque</p> <p>(B) Agent for collection</p> <p>(C) Remittance of proceeds to the customer</p> <p>(D) All of above</p> | <p>6. संग्रहकर्ता बैंकर का कर्तव्य है –</p> <p>(A) चेक के संग्रहण में उचित सावधानी तथा तत्परता/कर्मठता</p> <p>(B) संग्रहण के लिये अभिकर्ता</p> <p>(C) आगम का ग्राहक का प्रेषण</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>7. The collecting banker collects the _____ on behalf of the customers.</p> <p>(A) Cheques</p> <p>(B) Bills</p> <p>(C) (A) & (B) Both</p> <p>(D) Either (A) or (B)</p> | <p>7. संग्रहकर्ता बैंकर ग्राहक की ओर से को एकत्रित करता है।</p> <p>(A) चेकों को</p> <p>(B) बिलों को</p> <p>(C) (A) & (B) दोनों</p> <p>(D) या तो (A) या (B)</p> |
| <p>8. The statutory Protection for Paying Bank is/are Defined in -</p> <p>(A) Section 10</p> <p>(B) Section 89</p> <p>(C) Section 128</p> <p>(D) All of above</p> | <p>8. भुगतान करने वाले बैंको के लिये वैधानिक प्रावधानों को परिभाषित किया गया है –</p> <p>(A) धारा 10</p> <p>(B) धारा 89</p> <p>(C) धारा 128</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

9. Banker on whom the cheque is drawn is called _____ ?
 (A) Paying Bank
 (B) Paying Banker
 (C) Drawee Banker
 (D) Drawee Bank
10. Which is/are true -
 (A) banker is custodian of the Money of account holders.
 (B) Drawee Banker is the Paying Bank
 (C) (A) & (B) Both
 (D) Either (A) or (B)
11. In which section of FEMA Act power of search & seizure are described -
 (A) Section 27
 (B) Section 37
 (C) Section 59
 (D) Section 73
12. In FEMA Act "person" include/s
 (A) An Individual
 (B) A Hindu Undivided family
 (C) A Company
 (D) All of above
13. Which section of FEMA Act is related to appointment of "The Director of Enforcement".
 (A) Section 06
 (B) Section 16
 (C) Section 26
 (D) Section 36

9. एक बैंकर जिस पर चेक को आहूत किया जाता है, कहलाता है -
 (A) भुगतान करने वाला बैंक
 (B) भुगतान करने वाला बैंकर
 (C) उपरवाल बैंकर
 (D) उपरवाल बैंक
10. क्या सत्य है -
 (A) बैंकर खाताधारक के धन का संरक्षक होता है।
 (B) उपरवाल बैंकर भुगतान करने वाला बैंक है
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) या तो (A) या (B)
11. फेमा अधिनियम की किस धारा में जब्ती तथा तलाशी वर्णित है -
 (A) धारा 27
 (B) धारा 37
 (C) धारा 59
 (D) धारा 73
12. फेमा अधिनियम में 'व्यक्ति' में सम्मिलित है -
 (A) एक वैयक्तिक/व्यक्ति
 (B) एक हिन्दू अविभाज्य परिवार
 (C) एक कम्पनी
 (D) उपरोक्त सभी
13. फेमा अधिनियम की कौन सी धारा "प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति" से सम्बंधित है।
 (A) धारा 06
 (B) धारा 16
 (C) धारा 26
 (D) धारा 36

- | | |
|---|---|
| <p>14. In FEMA Act Appellate Tribunal referred to -
 (A) Section 16
 (B) Section 26
 (C) Section 18
 (D) Section 28</p> <p>15. FEMA Act Extends to the -
 (A) Whole of India
 (B) Except Jammu & Kashmir
 (C) (A) & (B) Both
 (D) Either (A) & (B)</p> <p>16. FEMA Act Replaced the -
 (A) Foreign exchange Regulation Act
 (B) Prevention of Money Laundering Act
 (C) Foreign Exchange & Money Laundering Act
 (D) None of above</p> <p>17. FEMA makes offences related to foreign exchange
 (A) Civil offences
 (B) Criminal offences
 (C) (A) & (B) Both
 (D) Either (A) or (B)</p> <p>18. Foreign exchange Management Act (FEMA) was Passed on -
 (A) 28/11/1998
 (B) 29/12/1998
 (C) 29/12/1999
 (D) 28/11/1998</p> | <p>14. फेमा अधिनियम के अर्न्तगत न्यायाधिकरण निर्दिष्ट है -
 (A) धारा 16
 (B) धारा 26
 (C) धारा 18
 (D) धारा 28</p> <p>15. फेमा अधिनियम का विस्तार है -
 (A) सम्पूर्ण भारत
 (B) सिवाय जम्मू तथा कश्मीर
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) या तो (A) या (B)</p> <p>16. फेमा अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया -
 (A) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम
 (B) धन शोधन निवारण अधिनियम
 (C) विदेशी मुद्रा विनियमन तथा धन शोधन अधिनियम
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।</p> <p>17. फेमा में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अपराध होते हैं -
 (A) दीवानी अपराध
 (B) फौजदारी अपराध
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) या तो (A) या (B)</p> <p>18. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) पारित हुआ -
 (A) 28/11/1998
 (B) 29/12/1998
 (C) 29/12/1999
 (D) 28/11/1998</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>19. King of Presentment of Negotiable instrument is/are -
 (A) Presentment for acceptance
 (B) presentment for sight
 (C) presentment for Payment
 (D) All of above</p> <p>20. Indorsee form Holder in Due Course is defined in section -
 (A) Section 51
 (B) Section 53
 (C) Section 55
 (D) Section 57</p> <p>21. Case related to holder is/are -
 (A) Durga Shah Mohan Lal Bankers Vs. Governor General in Council.
 (B) S.K. Sinha Vs. Co-operative Bank
 (C) Babu Das Shah Vs. R.B.I.
 (D) All of above</p> <p>22. Section 08 of the negotiable instrument Act is related to -
 (A) Holder
 (B) Holder in due course
 (C) (A) & (B) Both
 (D) None of above</p> <p>23. Capacity of Parties for negotiable instruments defined in section -
 (A) Section 20
 (B) Section 22
 (C) Section 24
 (D) Section 26</p> | <p>19. पराक्रम्य लिखत के उपस्थापन के प्रकार है -
 (A) स्वीकृति के लिये उपस्थापन
 (B) देखने के लिये उपस्थापन
 (C) भुगतान के लिये उपस्थापन
 (D) उपरोक्त सभी।</p> <p>20. सम्यक अनुक्रम मे धारक से पृष्ठांकिति वर्णित है -
 (A) धारा 51
 (B) धारा 53
 (C) धारा 55
 (D) धारा 57</p> <p>21. धारक से सम्बन्धित वाद है -
 (A) दुर्गा शाह मोहन लाल बैंकर्स बनाम परिषदीय गर्वनर जनरल
 (B) एस०के० सिन्हा बनाम को-आपरेटिव बैंक
 (C) बाबू दास शाह बनाम आर०बी०आई०
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>22. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 08 सम्बंधित है - से -
 (A) धारक
 (B) सम्यक अनुक्रम मे धारक
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) उपरोक्त मे कोई नहीं</p> <p>23. पराक्रम्य लिखत के लिये पक्षकारों की सक्षमता वर्णित है -
 (A) धारा 20
 (B) धारा 22
 (C) धारा 24
 (D) धारा 26</p> |
|---|--|

24. In which case court compared the Cheques and bill of exchange -
 (A) M.K Sinha V/s Union Bank
 (B) Vinod Baid V/s S.G.K. oriental Degree College.
 (C) S.K Gupta V/s R.B.I.
 (D) All of above
25. The Expression "Clearing House" means the house managed by -
 (A) Reserve Bank of India
 (B) State Bank of India
 (C) Government of India
 (D) All of above
26. Negotiable instruments (Amendment) Act 2015, is related to -
 (A) Electronic form of Cheque
 (B) Digital signature
 (C) (A) & (B) Both
 (D) None of above
27. In which section of N.I. Act the term Cheque is defined-
 (A) Section 04
 (B) Section 05
 (C) Section 06
 (D) Section 07
28. Which is/are related to Promissory Note ?
 (A) Two parties –Maker and payee
 (B) Promise to Make Payment
 (C) Maker is debtor of the Payee
 (D) All of above
24. किस वाद में न्यायालय ने चेकों तथा विनिमय पत्रों (बिलों) की तुलना बतायी –
 (A) एम० के० सिन्हा बनाम यूनियन बैंक
 (B) विनोद बैद बनाम एस० जी० के०ओरियन्टल डिग्री कालेज
 (C) एस० के० गुप्ता बनाम आर० बी० आई०
 (D) उपरोक्त सभी
25. अभिव्यक्ति "क्लियरिंग हाउस" का अर्थ है, घर (हाउस) जो प्रबंधित होता है –
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
 (B) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा
 (C) भारत सरकार द्वारा
 (D) उपरोक्त सभी
26. पराक्रम्य लिखत (संशोधन) अधि० 2015 सम्बन्धित है –
 (A) चेक का इलेक्ट्रानिक रूप
 (B) डिजिटल हस्ताक्षर
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
27. एन०आई० अधिनियम की किस धारा में 'चेक' को वर्णित किया गया है –
 (A) धारा 04
 (B) धारा 05
 (C) धारा 06
 (D) धारा 07
28. क्या वचनपत्र से सम्बन्धित है ?
 (A) दो पक्षकार – निर्माता तथा कर्ता (अदाता)
 (B) भुगतान करने का वादा
 (C) निर्माता अदाता का कर्जदार होता है।
 (D) उपरोक्त सभी

- | | |
|---|--|
| <p>29. Is a Bank Note or currency Note, is Promissory Note ?
 (A) Yes
 (B) No
 (C) Either (A) or (B)
 (D) (A) & (B) Both</p> <p>30. Which is/are negotiable instrument under the Provisions of N.I. Act 1881 -
 (A) Promissory Note
 (B) Promise to pay
 (C) Unconditional Promise
 (D) All of the above</p> <p>31. Negotiable Instruments can be negotiate by -
 (A) Customs
 (B) Usage
 (C) Statute
 (D) All of above</p> <p>32. Characteristic of Negotiable instrument is/are -
 (A) Written
 (B) Transferability
 (C) Consideration
 (D) All of above</p> <p>33. A Negotiable instrument is a/an -
 (A) Conditional written document
 (B) Unconditional written document
 (C) Either (A) or (B)
 (D) None of above</p> | <p>29. क्या बैंक नोट या मुद्रा नोट एक वचन पत्र है—
 (A) हाँ
 (B) नहीं
 (C) या तो (A) या (B)
 (D) (A) & (B) दोनों</p> <p>30. एन०आई० अधिनियम 1881 के प्रावधानों के अन्तर्गत पराक्रम्य लिखत है –
 (A) वचनपत्र
 (B) भुगतान का वादा
 (C) बिना शर्त वादा
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>31. पराक्रम्य लिखत का पराक्रमण/निपटारा किया जा सकता है –
 (A) रीति द्वारा
 (B) प्रचलन द्वारा/आचरण द्वारा
 (C) कानून द्वारा
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>32. पराक्रम्य लिखत की विशेषता/विशेषतायें है –
 (A) लिखित
 (B) हस्तांतरणीयता
 (C) प्रतिफल
 (D) उपरोक्त सभी</p> <p>33. एक पराक्रम्य लिखत है, एक—
 (A) सशर्त लिखित दस्तावेज
 (B) बिना शर्त लिखित दस्तावेज
 (C) या तो (A) या (B)
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
|---|--|

34. Term Negotiable Instrument is define in _____ of the Negotiable Instruments Act.
 (A) Section 11
 (B) Section 12
 (C) Section 13
 (D) None of above
35. Case related to territorial Jurisdiction for offence of dishonour of Cheque is/are -
 (A) Dashrath Rup Singh Vs State of Maharashtra
 (B) Sandeep Jain Vs Union of India
 (C) M.K. Traders Vs Vijaya Bank
 (D) All of above
36. Which amendment Act, enhanced the Punishment from one year to two years under section 138 of N.I. Act.
 (A) 2001
 (B) 2002
 (C) 2003
 (D) 2004
37. Which Amendment Act was aimed for speedy disposal of cases relating to the offence of dishonour of Cheques -
 (A) 1988
 (B) 2000
 (C) 2002
 (D) 2008
34. शब्द "पराक्रम्य लिखत" –पराक्रम्य लिखत अधिनियम की में वर्णित है।
 (A) धारा 11
 (B) धारा 12
 (C) धारा 13
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
35. चेको के अनादर के अपराध हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सम्बंधी वाद है –
 (A) दशरथ रूप सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य
 (B) संदीप जैन बनाम भारत संघ
 (C) एम०के० ट्रेडर्स बनाम विजया बैंक
 (D) उपरोक्त सभी
36. किस संशोधन अधिनियम ने एन०आई० अधिनियम की धारा 138 के अर्न्तगत सजा को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया –
 (A) 2001
 (B) 2002
 (C) 2003
 (D) 2004
37. चेक अनादर अपराधों के तत्वरित निस्तारण हेतु कौन सा संशोधन अधिनियम लाया गया –
 (A) 1988
 (B) 2000
 (C) 2002
 (D) 2008

- | | |
|--|---|
| <p>38. The Negotiable Instruments Act 1881 was enacted for -
 (A) Promissory Notes
 (B) Bills of exchange
 (C) Cheques
 (D) All of above</p> <p>39. In case of dishonour of Cheques, Penalties incorporated via amendment Act of -
 (A) 1968
 (B) 1988
 (C) 1998
 (D) 2008</p> <p>40. Section inserted by negotiable Instruments Amendment Act 2002-
 (A) Section 143
 (B) Section 147
 (C) A & B Both
 (D) None of above</p> <p>41. The Bills of exchanges, Cheques and Promissory notes are contained in which entry of Union list ?
 (A) 36
 (B) 46
 (C) 56
 (D) 66</p> | <p>38. पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 अधिनियमित किया गया के लिये –
 (A) वचनपत्रों
 (B) विनिमय बिलों/पत्रों
 (C) चेकों
 (D) उपरोक्त</p> <p>39. चेकों के अनादर के मामले में, किस संशोधन अधिनियम द्वारा दण्डिक प्रावधान किये गये –
 (A) 1968
 (B) 1988
 (C) 1998
 (D) 2008</p> <p>40. पराक्रम्य लिखत संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा धारा जोड़ी गयी –
 (A) धारा 143
 (B) धारा 147
 (C) (A) & (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> <p>41. विनियम पत्रों/(बिलों), चेकों और वचनपत्रों संघ सूची की किस प्रविष्टि में है –
 (A) 36
 (B) 46
 (C) 56
 (D) 66</p> |
|--|---|

42. The Main source of N.I Act, 1881 was.
- (A) English common Law
(B) English Law
(C) English common Law of contract
(D) None of above
43. In India First Bill prepared for negotiable instrument in -
- (A) 1818
(B) 1867
(C) 1879
(D) 1949
44. According to -
The earliest form of Negotiable Instrument was the bill of exchange, the next simple promissory note and next the Bank note.
- (A) M.C. Chalmer
(B) S.K. Aggarwal
(C) J.L. Lewinson
(D) Lord Dundin
45. New section Inserted in the Amended negotiable instruments Act is/are -
- (A) Section 143 (A)
(B) Section 148
(C) (A) & (B) Both
(D) None of above
42. एन०आई० अधिनियम 1881 का मुख्य स्रोत था/थी -
- (A) अंग्रेजी कॉमन विधि
(B) अंग्रेजी विधि
(C) अनुबंध की अंग्रेजी कॉमन विधि
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
43. भारत में पराक्रम्य लिखत के लिये सर्वप्रथम बिल तैयार किया गया -
- (A) 1818
(B) 1867
(C) 1879
(D) 1949
44. किसके अनुसार -
पराक्रम्य लिखत का सबसे पहला रूप विनिमय पत्र (बिल) अगला साधारण वचनपत्र और अगला बैंक नोट था।
- (A) एम०सी० चल्मर
(B) एस०के० अग्रवाल
(C) जे०एल० लेविनसन
(D) लार्ड डुडिन
45. संशोधित पराक्रम्य लिखत अधिनियम में नयी धारा/धाराएँ जोड़ी गयी -
- (A) धारा 143 (क)
(B) धारा 148
(C) (A) & (B) दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं।

- | | |
|---|--|
| <p>46. The Negotiable Instruments (Amendment) Act 2018 came into force on -</p> <p>(A) 09/01/2018</p> <p>(B) 09/01/2019</p> <p>(C) 01/09/2018</p> <p>(D) 01/09/2019</p> | <p>46. पराक्रम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम 2018, लागू हुआ -</p> <p>(A) 09/01/2018</p> <p>(B) 09/01/2019</p> <p>(C) 01/09/2018</p> <p>(D) 01/09/2019</p> |
| <p>47. R.B.I. released, “charter of customer rights” on -</p> <p>(A) 01/11/2014</p> <p>(B) 01/11/2017</p> <p>(C) 03/12/2014</p> <p>(D) 03/12/2017</p> | <p>47. आर०बी०आई० ने “ग्राहक अधिकारों का चार्टर” जारी किया -</p> <p>(A) 01/11/2014</p> <p>(B) 01/11/2017</p> <p>(C) 03/12/2014</p> <p>(D) 03/12/2017</p> |
| <p>48. The right of ‘lien’ is given -</p> <p>(A) By law, not by the contract</p> <p>(B) By Law & contract Both</p> <p>(C) By contract, not by Law</p> <p>(D) All of above</p> | <p>48. ग्रहणाधिकार/धारणाधिकार का अधिकार दिया जाता है -</p> <p>(A) विधि द्वारा न कि संविदा द्वारा</p> <p>(B) संविदा और विधि दोनों द्वारा</p> <p>(C) संविदा द्वारा न कि विधि द्वारा</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>49. Right of customer is/are -</p> <p>(A) Right to fair treatment</p> <p>(B) Right to Trans parency</p> <p>(C) Right to suitability</p> <p>(D) All of above</p> | <p>49. ग्राहक के/का अधिकार है -</p> <p>(A) उचित व्यवहार का अधिकार</p> <p>(B) पारदर्शिता का अधिकार</p> <p>(C) उपयुक्तता का अधिकार</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>50. Right of Bank is/are -</p> <p>(A) Right of Appropriation</p> <p>(B) Right of Generalcien</p> <p>(C) Right to set - off</p> <p>(D) All of above</p> | <p>50. बैंक का अधिकार है/हैं -</p> <p>(A) विनियोग का अधिकार</p> <p>(B) सामान्य ग्रहणाधिकार का अधिकार</p> <p>(C) सेट ऑफ/बंद करने क अधिकार</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>51. Duty of Bank to ward customer is/are -</p> <p>(A) To maintain secrecy</p> <p>(B) To Honour customer's Cheques</p> <p>(C) To be careful for customer's Interest</p> <p>(D) All of above</p> | <p>51. ग्राहक के प्रति बैंक का कर्तव्य है –</p> <p>(A) गोपनीयता बनाये रखना</p> <p>(B) ग्राहक के चेकों का आदर करना</p> <p>(C) ग्राहक के हितों के प्रति सचेत/सर्तक</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>52. The relationship between Bank and customer may be terminated-</p> <p>(A) Voluntarily</p> <p>(B) Involuntarily</p> <p>(C) By operation of Law</p> <p>(D) All of above</p> | <p>52. बैंक तथा ग्राहक के बीच सम्बंध समाप्त हो सकता है –</p> <p>(A) स्वेच्छापूर्वक</p> <p>(B) अनैच्छिक</p> <p>(C) विधि के प्रयोग द्वारा</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>53. When Bank is lessor and customers lessee, then which section of the Transfer of Property Act, 1882 will be applicable -</p> <p>(A) Section 103</p> <p>(B) Section 104</p> <p>(C) Section 105</p> <p>(D) Section 206</p> | <p>53. जब बैंक पट्टाकर्ता तथा ग्राहक पट्टेदार हो, तब सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा लागू होगी ?</p> <p>(A) धारा 103</p> <p>(B) धारा 104</p> <p>(C) धारा 105</p> <p>(D) धारा 206</p> |
| <p>54. When banker acts as a Bailee, which section of Indian Contract Act 1872 is Applicable -</p> <p>(A) Section 141</p> <p>(B) Section 145</p> <p>(C) Section 147</p> <p>(D) Section 148</p> | <p>54. जब बैंक एक उपनिहिती (निक्षेपगृहीता) के रूप में कार्य करता है तब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा लागू होती है।</p> <p>(A) धारा 141</p> <p>(B) धारा 145</p> <p>(C) धारा 147</p> <p>(D) धारा 148</p> |

55. According to, "A Bank is a debtor of his customer but there are some circumstances where the Bank acts as a trustee too".

- (A) Austin
- (B) P.V. Young
- (C) John Glover
- (D) Salmond

56. In which case court decided that "the Bank which issues a letter of credit acts as a principal, not as agent for its customer and engages its own credit".

- (A) U.P Cooperative federation Ltd. Vs Singh consultant's (P) Ltd.
- (B) Axis Bank Vs Punjab National bank
- (C) A & B Both
- (D) None of above

57. When Bank Acts as an agent of the customer which section of Indian Contract Act 1872 is/are Applicable -

- (A) Section 211
- (B) Section 212
- (C) Both (A) & (B)
- (D) None of above

55. किसके अनुसार, "एक बैंक अपने ग्राहक का कर्जदार होता है लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बैंक की एक ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में भी कार्य करता है।"

- (A) आस्टिन
- (B) पी०वी०यंग
- (C) जॉन ग्लोवर
- (D) सामण्ड

56. किस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि "बैंक जो साख पत्र जारी करता है वह अपने ग्राहक के लिये एजेंट के रूप में नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता है और अपनी स्वयं की साख वचनबद्ध करता है।"

- (A) उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० बनाम सिंह कंसल्टेंट (प्रा०) लि०
- (B) एक्सिस बैंक बनाम पंजाब नेशनल बैंक
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

57. जब बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा लागू होती है -

- (A) धारा 211
- (B) धारा 212
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं।

58. According to Sir John Paget “the Primary and natural relation of Banker and customer is that the -

- (A) Banker is debtor & customer creditor
- (B) Customer is debtor & Banker Creditor
- (C) (A) & (B) Both
- (D) None of above

59. According to whom-

The relationship between the Bank and its customers is characterised by great amount trust & Confidence.

- (A) Lord Dundin
- (B) Sreekar ullal Vs Syndicate Bank
- (C) (A)&(B) Both
- (D) None of above

60. Legal definition of the term customer is defined in -

- (A) R.B.I. Act 1934
- (B) Banking Regulation Act 1949
- (C) (A)&(B) Both
- (D) None of above

61. The banker has a lien on -

- (A) Bonds given for collection
- (B) Bonds given for safe custody
- (C) Bonds left by Mistake
- (D) All of above

58. सर जॉन पगेट के अनुसार “बैंकर तथा ग्राहक का प्राथमिक तथा स्वाभाविक सम्बंध यह है कि—

- (A) बैंकर देनदार तथा ग्राहक लेनदार होता है।
- (B) ग्राहक देनदार तथा बैंकर लेनदार होता है।
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

59. किसके अनुसार –

बैंक और उसके ग्राहक के बीच सम्बंध की विशेषता है अत्यधिक/अपार विश्वास तथा आत्म विश्वास.

- (A) लार्ड डुंडिन
- (B) श्रीकर उल्लाल बनाम सिंडीकेट बैंक
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं।

60. ग्राहक की विधिक परिभाषा वर्णित है –

- (A) आर०बी०आई० अधि० 1934
- (B) बैंकिंग विनियमन अधि० 1949
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

61. बैंकर पर ग्रहणाधिकार है –

- (A) संग्रह के लिये दिये गये बाण्ड
- (B) सुरक्षित अभिरक्षा के लिये दिये गये बाण्ड
- (C) गलती से छोड़े गये बाण्ड
- (D) उपरोक्त सभी

- | | |
|--|--|
| <p>62. The relationship between a Banker and customer is _____ in nature.</p> <p>(A) Conceptual</p> <p>(B) Contractual</p> <p>(C) Either (A) or (B)</p> <p>(D) None of above</p> | <p>62. एक बैंकर तथा ग्राहक के बीच के सम्बंध की प्रकृति होती है –</p> <p>(A) वैचारिक</p> <p>(B) संविदात्मक</p> <p>(C) या तो (A) या (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं।</p> |
| <p>63. For R.B.I. The Central Government appointed a Governor and -</p> <p>(A) One Deputy Governors</p> <p>(B) Two Deputy Governors</p> <p>(C) Three Deputy Governors</p> <p>(D) Four Deputy Governors</p> | <p>63. आर०बी०आई० के लिये केन्द्र सरकार एक गवर्नर के साथ ही नियुक्त करती है –</p> <p>(A) एक उप गवर्नर</p> <p>(B) दो उप गवर्नर</p> <p>(C) तीन उप गवर्नर</p> <p>(D) चार उप गवर्नर</p> |
| <p>64. The Central Board of R.B.I. is constituted with -</p> <p>(A) Official Directors</p> <p>(B) Non official Directors</p> <p>(C) (A)&(B)Both</p> <p>(D) Either A or B</p> | <p>64. आर०बी०आई० के केन्द्रीय बोर्ड का गठन होता है –</p> <p>(A) आधिकारिक निदेशक</p> <p>(B) अनौपचारिक निदेशक</p> <p>(C) (A) & (B) दोनों</p> <p>(D) या तो (A) या (B)</p> |
| <p>65. The R.B.I. is a -</p> <p>(A) Corporate Body</p> <p>(B) Natural Body</p> <p>(C) (A) & (B) Both</p> <p>(D) None of above</p> | <p>65. आर०बी०आई० है एक –</p> <p>(A) निगमित निकाय</p> <p>(B) वास्तविक/प्राकृतिक निकाय</p> <p>(C) (A) & (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>66. To amend the Law relating to Banking companies was introduced in legislative assembly in -</p> <p>(A) January 1944</p> <p>(B) November 1944</p> <p>(C) January 1949</p> <p>(D) November 1949</p> | <p>66. बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित कानून में संशोधन के लिये विधेयक विधान सभा में पेश किया गया –</p> <p>(A) जनवरी 1944</p> <p>(B) नवम्बर 1944</p> <p>(C) जनवरी 1949</p> <p>(D) नवम्बर 1949</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>67. Banking Regulation Act 1949 consists of -
 (A) 56 sections & 05 Schedules
 (B) 56 sections & 10 Schedules
 (C) 66 sections & 05 Schedules
 (D) 66 sections & 10 Schedules</p> <p>68. Reserve Bank of India Act 1934 consists of -
 (A) 61 sections & 10 Schedules
 (B) 61 sections & 02 Schedules
 (C) 51 sections & 10 Schedules
 (D) 51 sections & 02 Schedules</p> <p>69. R.B.I. Started its operations from -
 (A) 1935
 (B) 1937
 (C) 1949
 (D) 1951</p> <p>70. Under the provisions of Imperial Bank of India Act 1920, Imperial Bank of India was established in -
 (A) 1920
 (B) 1921
 (C) 1922
 (D) 1923</p> <p>71. Who observed, the concept that bank and customer are Interdependent ?
 (A) John Paget
 (B) Lord Dundin
 (C) Wadsley & Penn
 (D) None of above</p> | <p>67. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में शामिल है—
 (A) 56 धारायें तथा 05 अनुसूचियाँ
 (B) 56 धारायें तथा 10 अनुसूचियाँ
 (C) 66 धारायें तथा 05 अनुसूचियाँ
 (D) 66 धारायें तथा 10 अनुसूचियाँ</p> <p>68. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में है —
 (A) 61 धारायें तथा 10 अनुसूचियाँ
 (B) 61 धारायें तथा 02 अनुसूचियाँ
 (C) 51 धारायें तथा 10 अनुसूचियाँ
 (D) 51 धारायें तथा 02 अनुसूचियाँ</p> <p>69. आर०बी०आई० ने अपना संचालन प्रारम्भ किया में—
 (A) 1935
 (B) 1937
 (C) 1949
 (D) 1951</p> <p>70. इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1920, के प्रावधानों के अन्तर्गत, इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई थी —
 (A) 1920
 (B) 1921
 (C) 1922
 (D) 1923</p> <p>71. किसने इस अवधारणा को बताया कि — बैंक और ग्राहक अन्योन्याश्रित हैं ?
 (A) जॉन पैगेट
 (B) लार्ड डुनडिन
 (C) वैडस्ली तथा पेन
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
|---|--|

72. "Banking" is Listed in union list of _____ schedule of the Indian constitution ?
 (A) Seventh
 (B) Sixth
 (C) Fourth
 (D) Second
73. Secondary function of commercial banks is/are -
 (A) fixed Deposits
 (B) Saving Deposits
 (C) Current Deposits
 (D) Credit & Debit Cards
74. Primary function of commercial Banks is/are -
 (A) Accepting deposits
 (B) lending Money
 (C) (A) & (B) both
 (D) None of above
75. Chain Banking system is found/exist in -
 (A) Pakistan
 (B) U.S.A.
 (C) Germany
 (D) China
76. _____ refers to Banking in which Banks under go transactions directly with consumers rather than with corporations or other Banks.
 (A) Chain Banking
 (B) Retail Banking
 (C) Unit Banking
 (D) All of above
72. बैंकिंग भारतीय संविधान की संघ सूची की किस अनुसूची में सूचीबद्ध है ?
 (A) सातवीं
 (B) छठी
 (C) चतुर्थ
 (D) द्वितीय
73. वाणिज्यिक बैंकिंग का/के द्वितीयक कार्य है—
 (A) सावधि जमा
 (B) बचत जमा
 (C) चालू जमा
 (D) डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड्स
74. वाणिज्यिक बैंकिंग का/के प्राथमिक कार्य है /हैं —
 (A) जमा स्वीकार करना
 (B) धन उधार देना
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
75. चेन/श्रृंखला बैंकिंग विद्यमान है —
 (A) पाकिस्तान
 (B) यू०एस०ए०
 (C) जर्मनी
 (D) चीन
76. ऐसी बैंकिंग को संदर्भित करता है जिसमें बैंक निगमों या अन्य बैंकों के बजाय सीधे उपभोक्ताओं के साथ लेनदेन करते हैं।
 (A) चेन/श्रृंखला बैंकिंग
 (B) खुदरा बैंकिंग
 (C) इकाई बैंकिंग
 (D) उपरोक्त सभी

77. In Branch Banking
- (A) Commercial Bank has a network of branches.
 - (B) Operate throughout the country
 - (C) (A) & (B) both
 - (D) None of above
78. In unit Banking system, business of Bank is confined to-
- (A) Single office with no Branch
 - (B) Single office with Multiple Branches
 - (C) Multiple offices with no Branch
 - (D) Multiple offices with Multiple branches
79. When Investment banking, development banking, Insurance etc. take place under one Roof is known as -
- (A) Universal Banking
 - (B) Global Banking
 - (C) Multi Banking
 - (D) All of above
80. The Concept of Development Banks came into existence after -
- (A) World War I
 - (B) World War II
 - (C) Economical Development era
 - (D) All of above

77. शाखा बैंकिंग में –
- (A) वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं का एक नेटवर्क होता है।
 - (B) देश भर में संचालित होते हैं।
 - (C) (A) और (B) दोनों
 - (D) उपरोक्त में कोई नहीं।
78. यूनिट बैंकिंग प्रणाली में, बैंक का व्यवसाय सीमित होता है –
- (A) बिना शाखा वाला एकल कार्यालय
 - (B) एकाधिक शाखाओं वाला एकल कार्यालय
 - (C) बिना शाखा वाले एकाधिक कार्यालय
 - (D) एकाधिक शाखाओं वाले एकाधिक कार्यालय
79. जब निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा आदि एक ही छत के नीचे होते हैं, तो उसे कहते हैं—
- (A) सार्वभौमिक बैंकिंग
 - (B) वैश्विक बैंकिंग
 - (C) मल्टी बैंकिंग
 - (D) उपरोक्त सभी
80. किसके बाद "विकास बैंकों" की अवधारणा अस्तित्व में आयी –
- (A) प्रथम विश्व युद्ध
 - (B) द्वितीय विश्व युद्ध
 - (C) आर्थिक विकास युग
 - (D) उपरोक्त सभी

81. For the Development and upgradation of the rural areas specially the agriculture, the _____ are established -

- (A) Development Banks
- (B) Co-Operative Banks
- (C) Foreign Banks
- (D) All of above

82. Foreign Banks in India have been allowed by R.B.I on -

- (A) Regular Basis
- (B) Reciprocal basis
- (C) (A) & (B) both
- (D) None of above

83. Major/full stake of Public Sector Bank's held by _____ itself.

- (A) State Government
- (B) Central Government
- (C) Either (A) or (B)
- (D) Neither (A) Nor (B)

84. In which case court decided that "Nationalisation of Commercial Banks has not changed the Nature of Bank's Business" ?

- (A) Jugal Kishore Vs Cheddu
- (B) Jogendra nama & others Vs Union of India
- (C) Joseph Kuruvilla Vs R.B.I
- (D) All of above

81. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा उन्नयन, विशेषकर कृषि के लिये, की स्थापना की गयी—

- (A) विकास बैंकों
- (B) सहकारी बैंकों
- (C) विदेशी बैंकों
- (D) उपरोक्त सभी

82. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी बैंकों को अनुमति दी गई —

- (A) नियमित आधार पर
- (B) पारस्परिक आधार पर
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं।

83. के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रमुख/पूर्ण हिस्सेदारी है।

- (A) राज्य सरकार
- (B) केन्द्र सरकार
- (C) या तो (A) या (B)
- (D) ना तो (A) ना ही (B)

84. किस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि — "वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंक व्यवसाय की प्रकृति को नहीं बदला है।"

- (A) जुगल किशोर बनाम छेदू
- (B) जोगेन्द्र नामा एवं अन्य बनाम भारतसंघ
- (C) जोसफ कुरुविला बनाम आर०बी०आई०
- (D) उपरोक्त सभी

85. Which is/are included in Scheduled Commercial Banks ?
- (A) Public Sector Banks
(B) Private Sector Banks
(C) Foreign Banks
(D) All of above
86. Scheduled Commercial Bank is/are-
- (A) State Bank of India
(B) Foreign Banks
(C) Regional Rural Banks
(D) All of above
87. Bank's which is/are mentioned in Second Schedule of R.B.I Act -
- (A) Scheduled Commercial Banks
(B) Non Scheduled Commercial Banks
(C) (A) & (B) both
(D) None of above
88. Those financial Institutions which finance trade an industry with short term loans is/are -
- (A) Small Finance Bank
(B) Commercial Bank
(C) Non Commercial Bank
(D) All of above
85. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सम्मिलित हैं -
- (A) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(B) निजी क्षेत्र के बैंक
(C) विदेशी बैंक
(D) उपरोक्त सभी
86. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं -
- (A) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
(B) विदेशी बैंक
(C) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(D) उपरोक्त सभी
87. आर०बी०आई० अधिनियम की द्वितीय सूची में वर्णित बैंक कौन हैं -
- (A) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(B) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(C) (A) & (B) दोनों
(D) उपरोक्त में कोई नहीं।
88. वे वित्तीय संस्थान जो व्यापार और उद्योग को अल्प अवधि ऋण के साथ वित्तपोषित करते हैं, होते हैं -
- (A) लघु वित्त बैंक
(B) वाणिज्यिक बैंक
(C) गैर वाणिज्यिक बैंक
(D) उपरोक्त सभी

89. In Indian Banking System R.B.I is-
- (A) Regulator of all the Banks
(B) Central Bank of India
(C) Either (A) or (B)
(D) (A) & (B) both
90. Pradhan Mantri Jandhan Yojana is-
- (A) National Mission on Financial inclusion
(B) Financial Literacy
(C) One basic banking account for every house hold
(D) All of above
91. The Government appointed a committee on Banking sector reforms headed by Shri M. Narasimhan in -
- (A) August 1991
(B) May 1991
(C) January 1987
(D) November 1987
92. The Draft Bill of Banking Companies Act 1949 prepared in -
- (A) 1939
(B) 1947
(C) 1949
(D) 1951
89. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई है –
- (A) सभी बैंकों का नियामक
(B) भारत का केंद्रीय बैंक
(C) या तो (A) या (B)
(D) (A) & (B) दोनों
90. प्रधानमंत्री जनधन योजना है –
- (A) वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन
(B) वित्तीय साक्षरता के लिये
(C) हर घर के लिये एक मूल/आधारभूत बैंकिंग
(D) उपरोक्त सभी
91. सरकार ने श्री एम० नरसिम्हां की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु एक समिति गठित की –
- (A) अगस्त 1991
(B) मई 1991
(C) जनवरी 1987
(D) नवम्बर 1987
92. बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 का प्रारूप/मसौदा बिल तैयार किया गया –
- (A) 1939
(B) 1947
(C) 1949
(D) 1951

- | | |
|---|---|
| <p>93. Associates of State Bank of India established in -
 (A) 1950
 (B) 1960
 (C) 1970
 (D) 1980</p> <p>94. State Bank of India established in -
 (A) 1949
 (B) 1951
 (C) 1953
 (D) 1955</p> <p>95. R.B.I was Nationalized in -
 (A) 1948
 (B) 1949
 (C) 1950
 (D) 1951</p> <p>96. Bank of Barcelona was established in the year of -
 (A) 1401
 (B) 1407
 (C) 1609
 (D) 1621</p> <p>97. Who defined bank as “An undertaking the business of which is to receive deposits or other repayable funds from the public and to grant credits for its own account.”
 (A) European union
 (B) Georgia code
 (C) John Paget
 (D) Justice Smith</p> | <p>93. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोगियों (एसोशियेट्स) की स्थापना हुई –
 (A) 1950
 (B) 1960
 (C) 1970
 (D) 1980</p> <p>94. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई –
 (A) 1949
 (B) 1951
 (C) 1953
 (D) 1955</p> <p>95. आर०बी०आई० का राष्ट्रीयकरण हुआ—
 (A) 1948
 (B) 1949
 (C) 1950
 (D) 1951</p> <p>96. बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई –
 (A) 1401
 (B) 1407
 (C) 1609
 (D) 1621</p> <p>97. किसने बैंक को परिभाषित किया कि –
 “एक ऐसा उपक्रम जिसका व्यवसाय जनता से जमा या अन्य चुकाने योग्य धन प्राप्त करना तथा अपने खाते के लिये क्रेडिट देना है।”
 (A) यूरोपियन यूनियन
 (B) जार्जिया कोड
 (C) जॉन पेगेट
 (D) जस्टिस स्मिथ</p> |
|---|---|

98. In which case it was held that “A Bank merely served as a place for the safekeeping of the depositors money and even now that is the primary function of a Bank.”

- (A) Sterling Vs Tatum
- (B) Brenham Production Credit Assoc. Vs Zeiss
- (C) Padubidri P.Bhat Vs Shamrao Vithal Coop.
- (D) None of above

99. Some people believe that term “Bank” is originally derived from the German word -

- (A) Banco
- (B) Bancco
- (C) Benco
- (D) Bencco

100. Term “Bank” is derived from French term -

- (A) BANCUS
- (B) BANQUE
- (C) (A) & (B) both
- (D) None of above

98. किस वाद में न्यायालय ने कहा कि – “एक बैंक केवल जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित रखने के लिये एक स्थान के रूप में कार्य करता है और अब भी यह बैंक का प्राथमिक कार्य है।”

- (A) स्टेरलिंग बनाम टैटम
- (B) ब्रेन्हेम प्रोडक्शन क्रेडिट एसोसो बनाम जीस्स
- (C) पेडुबिडरी पी० भट बनाम शमराव विट्ठल कारपो०
- (D) उपरोक्त सभी

99. कुछ लोगों का मत/विश्वास है कि शब्द ‘बैंक’ वास्तविकता में जर्मन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है—

- (A) बैंको
- (B) बैंक्को
- (C) बेंको
- (D) बेंक्को

100. बैंक शब्द—फ्रेंच शब्द से लिया गया है।

- (A) बैंकस
- (B) बैंक्यू
- (C) (A) & (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

Rough Work / रफ कार्य

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.